



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

अक्टूबर 17, 2025

संख्या 42

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	अक्टूबर 11	अक्टूबर 03	अक्टूबर 10	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3488378	3761908	3770190	8282	281812
1.1 संचलन में नोट	3488363	3761894	3770178	8283	281815
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	15	13	12	-1	-3
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	100	0	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	43	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	983424	883596	833283	-50313	-150141
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8072	7640	7009	-631	-1063
2.6 अन्य बैंक	55076	50512	47614	-2898	-7462
2.7 अन्य	683412	687266	766226	78960	82815
3 अन्य देयताएं	1931136	2582289	2572197	-10092	641061
कुल देयताएं / आस्तियां	7149641	7973354	7996662	23309	847021
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5095928	5159591	5103903	-55688	7975
2 सोना	551932	876896	907894	30998	355962
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1313450	1734994	1734143	-850	420694
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	9074	22137	16116	-6021	7043
4.3 नाबाई	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	4843	1512	40552	39040	35709
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	156450	157168	172717	15549	16267
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	15901	18992	19273	281	3372

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	अक्टूबर 10, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6188784	697784	-25580	-2176	476643	29458	384912	7354
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	5074094	572103	-54896	-5605	223260	4545	12730	-29998
1.2 स्वर्ण	907894	102365	30998	3595	239732	24188	355962	36707
1.3 विशेष आहरण अधिकार	165714	18684	-1319	-130	10424	515	11557	346
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	41083	4632	-363	-36	3228	209	4664	299

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

अक्टूबर 17, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 846979 करोड़	2025													
	अक्टूबर 04	अक्टूबर 05	अक्टूबर 06	अक्टूबर 07	अक्टूबर 08	अक्टूबर 09	अक्टूबर 10	अक्टूबर 11	अक्टूबर 12	अक्टूबर 13	अक्टूबर 14	अक्टूबर 15	अक्टूबर 16	अक्टूबर 17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	919590	914733	885175	857508	836157	819400	839690							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	108.6	108.0	104.5	101.2	98.7	96.7	99.1							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	अक्टूबर 03, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	318430	-1177	-6550	9017	54288	30510
1.2 बैंकों से उधार	84733	-64	-54529	-27242	-71377	-43166
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	28436	949	-50226	-1480	-49598	6210
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	24098427	551915	1444900	1517825	2312553	2178300
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		2.3	7.1	6.7	11.8	9.9
2.1.1 मांग	3072654	211153	148045	374606	295225	480757
2.1.2 मीयादी	21025772	340762	1296855	1143220	2017329	1697544
2.2 उधारियां	855826	-2697	77796	-59423	13554	88
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1049845	-24580	30610	-11787	42803	81807
3 रिज़र्व बैंक से उधार	1512	-55889	-215640	-309954	-61856	-5564
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	973502	7159	60768	9213	26988	-108182
4.1 उपलब्ध नकदी	89906	8501	6747	8032	2096	-6274
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	883596	-1342	54022	1181	24892	-101909
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	234086	-6554	-3592	18285	9714	39351
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	24185	10074	5041	-1653	-13294	6789
5.3 बैंकों को अग्रिम	29465	-1776	-4571	-10039	-8064	-14333
5.4 अन्य आस्तियां	58155	-6307	-51253	-9197	-25619	-6016
6 निवेश	6876445	30164	351393	178517	396142	418494
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.4	5.8	2.7	6.5	6.5
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6875868	30106	351662	178570	396159	418596
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	577	58	-269	-53	-16	-102
7 बैंक ऋण	19266107	363246	865614	1022134	1959786	1968328
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		1.9	5.3	5.6	12.8	11.4
7 क.1 खाद्य ऋण	42659	-2625	-5279	6128	-1478	24858
7 क.2 खाद्येतर ऋण	19223447	365871	870894	1016006	1961264	1943471
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	18900094	345768	842345	990243	1909607	1923446
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	85684	6038	9255	10721	20278	15962
7 ख.3 भुनाए गए	243749	9267	16053	22690	31764	30339
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	13957	1321	-603	-1165	-484	-1852
7 ख.5 भुनाए गए	22622	852	-1436	-355	-1378	434

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समास सप्ताह	2024	2025				
	अक्टूबर 11	सितंबर 12	सितंबर 19	सितंबर 26	अक्टूबर 03	अक्टूबर 10
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	3.75	3.75	3.75	3.75	3.50
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	4.10	..	4.04	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	80.28	..	79.95	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	68.21	..	67.34	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	29.08	..	28.53	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	15.36	..	11.76	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
बैंक दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
आधार दर	9.10/10.40	8.50/10.30	8.50/10.30	8.50/10.30	8.35/10.30	8.35/10.00
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.45	7.80/8.00	7.80/8.00	7.80/8.00	7.80/8.00	7.80/8.00
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारंकिंत औसत)	6.42	5.36	5.48	5.57	5.47	5.43
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.43	5.51	5.50	5.47	5.49	5.43
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.54	5.62	5.60	5.58	5.59	5.55
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.53	5.67	5.63	5.61	5.60	5.55
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.75	6.57	6.58	6.60	6.47	6.48
एफबीआईएल[®] संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	84.06	88.28	88.31	88.72	88.78	88.69
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	91.93	103.60	103.93	103.62	104.08	102.62
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	1.71	1.85	2.04	2.19	2.02	1.80
3-माह	1.78	1.97	2.06	2.17	2.19	2.08
6-माह	2.05	2.13	2.18	2.23	2.36	2.23

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मद्रुओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	अक्टूबर 03	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	28895229	544948	1.9	1428812	5.7	1608640	5.9	2543220	10.7	2526556	9.6
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3698666	-8023	-0.2	-24868	-0.7	67914	1.9	197326	6.2	313258	9.3
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3217634	212733	7.1	148785	5.8	377611	13.3	297127	12.2	481961	17.6
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	21865077	342887	1.6	1303574	6.9	1162568	5.6	2026357	11.2	1713342	8.5
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	113853	-2650	-2.3	1322	1.4	546	0.5	22409	30.5	17994	18.8
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8734333	244024	2.9	286639	3.8	223508	2.6	408580	5.5	844124	10.7
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1538514	214019		-65237		30409		11334		410538	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7195819	30005	0.4	351876	5.5	193099	2.8	397246	6.2	433585	6.4
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	20072996	363421	1.8	860958	5.0	1004867	5.3	1992815	12.4	2009206	11.1
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	12613	-3056		-5691		-25632		3502		3898	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	20060383	366477	1.9	866649	5.0	1030500	5.4	1989313	12.4	2005309	11.1
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6633258	24807	0.4	525850	9.4	484731	7.9	1028318	20.3	539905	8.9
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	38864	426	1.1	1401	4.2	2232	6.1	3184	10.1	4031	11.6
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं	6477524	6584222	87730	1.4	246036	4.5	106698	1.6	889678	18.4	870710	15.2
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	2147427	2569200	105886	4.3	185914	10.4	421774	19.6	506573	34.5	593152	30.0

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	अक्टूबर 10	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4810686	-45673	-0.9	35247	0.8	-18557	-0.4	305040	7.0	143993	3.1
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचालन में करेंसी	3724448	3809041	8283	0.2	11735	0.3	84594	2.3	221614	6.7	285845	8.1
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	887906	-53842	-5.7	21123	2.1	-103583	-10.4	59582	6.0	-158666	-15.2
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	113739	-114	-0.1	2389	2.5	432	0.4	23845	32.6	16814	17.3
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1461246	-77268		-109092		-46859		9664		377126	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1445173	-71247		-111566		-30287		20955		370083	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-141914	45582		-131950		-22899		-208558		36183	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-154373	45737		-126798		2888		-213255		32978	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	6011205	-24473	-0.4	405576	7.7	460258	8.3	931557	19.8	364546	6.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	38864			1401	4.2	2232	6.1	3184	10.1	4031	11.6
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	2147427	2558715	-10486	-0.4	130688	7.3	411288	19.2	430807	28.9	637892	33.2

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	ऋय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अक्टूबर 06, 2025	-	-	-	-	1158	169737	-768	-	-	-169347
अक्टूबर 07, 2025	-	-	-	-	1430	158517	-719	-	-	-157806
अक्टूबर 08, 2025	-	-	-	-	1231	139538	-4	-	-	-138311
अक्टूबर 09, 2025	-	-	-	46860	15771	133799	0	-	-	-164888
अक्टूबर 10, 2025	-	-	37929	-	2783	194925	1176	-	-	-153037
अक्टूबर 11, 2025	-	-	-	-	1780	165273	-	-	-	-163493
अक्टूबर 12, 2025	-	-	-	-	2367	171513	-	-	-	-169146

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	अगस्त	सितंबर	अगस्त	सितंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	193.0	194.2	197.0	197.2	0.1	2.7	1.5
1.1 ग्रामीण	195.4	196.7	198.7	198.8	0.1	2.5	1.1
1.2 शहरी	190.3	191.4	195.0	195.3	0.2	2.8	2.0
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	142.6	143.3	147.1	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	154.4	154.7	155.2	154.9	-0.2	0.1	0.1
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	195.1	195.5	191.0	189.0	-1.0	1.9	-3.3
3.2 ईंधन और बिजली	148.3	147.2	143.6	143.4	-0.1	-5.7	-2.6
3.3 विनिर्मित उत्पाद	141.3	141.9	144.9	145.2	0.2	0.4	2.3

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
सितंबर 19, 2025	501817	71730	5.49 - 6.82
अक्टूबर 03, 2025	497940	38004	5.49 - 6.82

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
सितंबर 30, 2025	488263	70288	5.73 - 12.34
अक्टूबर 15, 2025	495679	30795	5.71 - 12.49

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	अक्टूबर 11, 2024	अक्टूबर 03, 2025	अक्टूबर 10, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	15954	21716	27723
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	1337	11930	3013
3 त्रिपक्षीय रेपो	616134	856666	683446
4 बाजार रेपो	498845	823769	742310
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	4519	16112	17407

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

अक्टूबर 10, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	11602	20571	74186	210086
182-दिवसीय	53652	42238	17780	182680
364-दिवसीय	67256	78714	45951	359351
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (अक्टूबर 10, 2025 तक)	2024-25 (अक्टूबर 11, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (अक्टूबर 10, 2025 तक)	2024-25 (अक्टूबर 11, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	827000	778697	1400697	620299	583151	1039275
2. राज्य सरकारें	510202	424279	1073310	362963	299873	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल, निदेशक द्वारा प्रकाशित।